

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**दिसम्बर, 2015 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 20, 1937)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री हरिनारायण डहेरिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
- (2) डॉ. रामजी मस्तकार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

## 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री –

- (क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का (30 जून, 2014 को समाप्त हुए अकादमिक वर्ष का) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014, तथा
- (ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा
- (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी जिला कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का) पटल पर रखेंगे.

## 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले में गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न दिये जाने की ओर सामाजिक न्याय मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री जयवर्धन सिंह, सदस्य, रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र में रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहीत भूमि का कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के सेवढा में बायपास मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले में धान की फसल की बीमा राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (5) श्री बेलसिंह भूरिया, सदस्य, धार जिले के ग्राम राजागढ में एक आदिवासी युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सीधी वन मण्डल परिक्षेत्र में किये गये कार्यों में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कोकासिंहका पुरा से ग्राम बैहरारा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (2) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के नगरीय क्षेत्र गंज बासौदा के वार्ड क्रमांक 8 की कालोनियों को वैध कराये जाने,
- (3) श्री नारायण सिंह पँवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पाडली महाराजा के निकट तालाब के वेस्ट-वियर पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

- (4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम आलापुरा की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,  
(5) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम महका पिपरिया सुनार नदी पर वृहद पुल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने,  
(6) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम भवानीपुरा में रोड निर्माण किये जाने,  
(7) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के बिजावर नगर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत हेतु अनुदान प्रदान किये जाने,  
(8) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम ईगुई में खेतों के मध्य एक पुल/पुलिया निर्माण किये जाने,  
(9) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य, ग्वालियर जिले के तिघरा जलाशय से डाली गई वाटर लाइन से ग्राम सोजना झण्डा का पुरा तक पेयजल की व्यवस्था किये जाने,  
(10) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम धानडी की अनुसूचित जनजाति बस्ती में मांगलिक भवन निर्माण किये जाने,  
(11) श्री जयवर्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के संजय सागर बांध का वेस्ट-वियर बनाये जाने,  
(12) श्री चेताराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम डागवा के पास नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने, तथा  
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के मिहवानी में एक विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित  
समय

## 6. अशासकीय संकल्प

- 50 मि. (1) सुश्री उषा ठाकुर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी –  
“सदन का यह मत है कि राष्ट्रीय तीर्थ अण्डमान निकोबार (पोर्ट ब्लेयर) क्रांतिकारियों की तपस्थली है. नागरिकों में राष्ट्र चरित्र निर्माण हेतु वहां की यात्रा पर जाने वाले देशभक्त तीर्थ यात्रियों की यात्रा पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश शासन प्रदान करें.”
- 50 मि. (2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –  
“सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावे.”
- 25 मि. (3) श्री संजय पाठक, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –  
“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि 13025 अप हावड़ा भोपाल एवं 13026 डाउन भोपाल हावड़ा तथा 19607 अप अजमेर-कोलकाता व 19608 डाउन कोलकाता अजमेर रेलगाड़ियों का पश्चिम मध्य रेलवे के खन्ना बंजारी स्टेशन पर स्टापेज किया जाये.”
- 25 मि. (4) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –  
“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेलवे स्टेशन भदौरा से जिला मुख्यालय सीधी तक नई रेलवे लाईन बनाई जावे.”

भोपाल :  
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2015

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा